

सं. 25: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2025	2026					
		फर. 28	जन. 23	जन. 30	फर. 6	फर. 13	फर. 20	फर. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	26554	7786	9423	11852	11495	13123	17961	16216
1.2 प्राथमिक व्यापारी	25258	14025	13956	12338	9936	10057	11678	12437
1.3 राज्य सरकारें	40315	73415	92335	81335	79586	75086	68427	62941
1.4 अन्य	115688	116990	79421	80610	83868	89120	89661	97647
2. 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	44887	37126	41116	39614	39116	35988	36090	38079
2.2 प्राथमिक व्यापारी	62218	54510	60364	64620	69016	75616	82592	86843
2.3 राज्य सरकारें	11078	7528	7264	7264	7264	7264	5264	4964
2.4 अन्य	104994	85164	85820	89066	91168	94296	93218	92978
3. 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	72304	66240	62136	63543	60373	57493	56059	54829
3.2 प्राथमिक व्यापारी	86939	112173	96615	98996	103049	99433	103825	107032
3.3 राज्य सरकारें	37389	36713	41257	38336	40946	42359	42623	42395
3.4 अन्य	162757	151587	151548	148760	147878	154374	152416	151439
4. 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	188072	291002	229929	215805	152931	243069	270170	264716
4.4 अन्य	572	38	2228	548	1010	480	1192	853
कुल खज़ाना बिल	790381	763256	741256	736334	743696	754209	759814	767799
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर) #								

#: 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल, 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे बिक्री योग्य नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।